



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349]
No. 349]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 1978/आषाढ़ 26, 1900
NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 1978/ASADHA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1978

का० भा० 453 (अ).—यतः पेट्रोलियम और खनिज पार्श्व लाहनों (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्जन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० भा० सं० 374 (ई) तारीख 6-6-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पार्श्व लाहनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्जन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनियमन किया है।

अब जतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पार्श्व लाहनों बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और अभी इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग के क्षेत्रीकरण बाधाओं से मुक्त इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा।

अनुसूची

उरण टमिनल से द्वास्त्रे तक पार्श्व लाहनों बिछाने के लिये
महाराष्ट्र—राज्य जिला—कुलाबा तालुका—उरण

गांव	सर्वेक्षण नम्बर	हेक्टेयर	एअररई	सेन्टेयर
बोरीपाखाड़ी	141/1+2	0	5	
	141/3	0	5	0
	145/3+4+5 (भाग)	0	22	0
	145/1	0	02	0
	145/2	0	07	0
	149 ए/ए/3बी(1)	0	01	0
	149 ए/1 ए/3 बी 2(2)	0	02	0

एस० जी० कुलकर्णी, सक्षम अधिकारी
तेल तथा प्राकृतिक वायु महामंडल, मुंबई

[सं० 12020/7/77 प्रोडक्शन]

आर० के० भागवत, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND
FERTILIZERS**

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1978

S.O. 453(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 374(E) dated 6-6-1978 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after-considering the said report, decided to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from Uran Terminal to Trombay

State : Maharashtra District : Kulaba Taluka : Uran.

Village	S.No.H.No.	Area	
		Hectare	Acres
Boripakhadi	141/1+2	0	5
	141/3	0	5
	145/3+4+5 (part)	0	22
	145/1	0	02
	145/2	0	07
	149 A1A/3 B (1)	0	1
	149 A1A/3 B2 (i)	0	2

S. S. KULKARNI, Competent Authority
Oil and Natural Gas Commission, Bombay.

[No. 12020/7/77-Prod.]

R. K. BHARGAVA, Joint Secy.